

NYC समुदायों के लिए आपातकालीन तत्परता संसाधन

निम्नलिखित संसाधन आपके समुदाय के लिए स्थानीयकृत आपातकालीन तत्परता सामग्रियों का एक संयोजन हैं।

रिक्तीकरण केन्द्र

यदि आपको स्थान खाली करने की आवश्यकता है, तो यह अनुशंसित किया जाता है कि रिक्तीकरण क्षेत्र के बाहर मित्रों या परिजनों के घर पर ठहरें। यदि आप सार्वजनिक केन्द्र पर जाना चाहते हैं तो निम्नलिखित सूची* में से अपने निकट के किसी रिक्तीकरण केन्द्र पर जाएं:

*कृपया ध्यान दें कि ये स्थान परिवर्तन के विषयाधीन हैं। और अधिक सूचना के लिए कृपया NYC.gov/hurricanezones पर जाएं अथवा कॉल करें 311 (212-639-9675 वीडियो प्रसारण सेवा के लिए, अथवा TTY: 212-504-4115).

सामुदायिक जिला सूचना

पुलिस स्टेशन (सीमा) दमकल केन्द्र सामुदायिक बोर्ड कार्यालय

शहर से सम्पर्क करना

911: आपात-स्थितियां

किसी तत्काल खतरे में होने अथवा कोई अपराध घटित होते हुए दिखाई पड़ने पर 911 को कॉल करें। यदि आपको कोई गम्भीर चोट लगी है अथवा प्राणघातक चिकित्सकीय स्थिति में हैं तो 911 पर कॉल करें।

311: गैर-आपातकालीन/शहरी सेवाएं

311, गैर-आपातकालीन शहरी सेवाओं तथा शहरी सरकारी कार्यक्रमों के बारे में पहुंच प्रदान करता है आपात-स्थितियों के लिए 311 पर कॉल न करें। 311 ऑनलाइन तथा फोन द्वारा उपलब्ध है:

- NYC.gov/311 पर जाने के द्वारा 311 पर ऑनलाइन रिजिट करें
- टेक्स्ट करें 311-692.
- कॉल करें 311 या (212) न्यू-यॉर्क, (212) 639-9675, न्यूयॉर्क शहर के बाहर से।
- एक वीडियो प्रसारण सेवा (VRS) का प्रयोग करते हुए हमसे सम्पर्क करें (212) न्यू-यॉर्क, (212) 639-9675.
- TTY अथवा टेक्स्ट टेलीफोन का प्रयोग करते हुए (212) 504-4115 के माध्यम से 311 से सम्पर्क करें

किसी आपात-स्थिति के पश्चात

न्यू-यॉर्क वासियों के पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, विशेष तौर पर किसी आपात-स्थिति के पश्चात।

LifeNet	ग्रेटर न्यू-यॉर्क में अमेरिकन रेड क्रॉस	UJA फेडरेशन
मानसिक स्वास्थ्य सूचना अथवा अभिनिर्देशन के लिए, अथवा यदि आपको किसी से बात करने की आवश्यकता है तो, न्यू-यॉर्क शहर के गोपनीय, 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हेटललाइन पर कॉल करें।	1-877-रेड-क्रॉस (1-877-733-2767)	1-877-852-6951
- अंग्रेजी व अन्य सभी भाषाएं: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), (TTY: 212-982-5284) - स्पैनिश में: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373) - मैन्डरीन, कैन्टोनीज़, तथा कोरियन में: 1-877-990-8585	www.nyredcross.org	www.ujafedny.org
आपदा संकट हेल्पलाइन	न्यू-यॉर्क आपदा Interfaith सेवाएं	न्यू-यॉर्क केयरस
1-800-985-5990	212-669-6100	212-228-5000
टेक्स्ट करें: 66746 पर “TalkWithUs” अथवा “Hablanos”	www.nydis.org	www.newyorkcares.org
http://disasterdistress.samhsa.gov	आपदा में सक्रिय न्यू-यॉर्क शहर स्वयंसेवी संगठन (NYC VOAD)	न्यू-यॉर्क के आर्क-डायोसेस की कैथोलिक चैरिटीज
मुक्ति सेना: ग्रेटर न्यू-यॉर्क विभाग	212-402-1102	1-800-744-7900
212-337-7424	www.nycvoad.org	www.catholiccharitiesny.org
www.ny.salvationarmy.org	info@nycvoad.org	कैथोलिक चैरिटीज ब्रुकलिन एवं क्वीन्स
		718-722-6223
		www.ccbq.org
		dcm@ccbq.org

न्यू-यॉर्क शहर सरकारी कार्यक्रम से जुड़ें

जबतक कि अन्यथा न बताया गया हो, 311 पर कॉल करें (212-639-9675 वीडियो प्रसारण सेवा के लिए, अथवा TTY: 212-504-4115), अथवा शहरी एजेन्सियों से सम्पर्क करने के लिए NYC.gov का प्रयोग करें।

- NYC.gov/readyny पर जाने के द्वारा सीखें कि **तैयार न्यू-यॉर्क कार्यक्रम** के माध्यम से आपात-स्थितियों तथा सामग्रियों का अनुरोध करने के लिए कैसे तैयार रहें।
- NYC.gov/partnersinpreparedness पर जाने के द्वारा सीखें कि **तत्परता में सामेदाार कार्यक्रम** के माध्यम से, अपने संगठन को आपात स्थितियों के लिए कैसे तैयार करें।
- NYC.gov/citizenecorps पर जाने के द्वारा सीखें कि **NYC नागरिक कॉर्प्स कार्यक्रम** के माध्यम से, न्यू-यॉर्क शहर को कहीं अधिक सुरक्षित, सशक्त तथा बेहतर तैयार कैसे बनाएं।
- NYC.gov/cert पर जाने के द्वारा **न्यू-यॉर्क शहर सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT) कार्यक्रम** के बारे में जानें तथा सीखें कि ये स्वयंसेवक अपने पड़ोसियों व समुदायों को भिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए तैयार रहने में किस प्रकार से सहायता करते हैं।
- NYC.gov/communityspacesurvey पर जाने के द्वारा सीखें कि **NYC सामुदायिक स्थान सर्वेक्षण नेटवर्क** के साथ अपने सामुदायिक स्थान को कैसे पंजीकृत करें।
- NYC.gov/notifynyc पर जाने के द्वारा शहर के आधिकारिक आपातकालीन स्प्रेषण कार्यक्रम **नोटिफाई NYC** के लिए साइन अप करें।
- www.advancewarningsystemnyc.org पर जाने के द्वारा, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए गए आपातकालीन संदेश प्राप्त करने के लिए **उन्नत चेतावनी प्रणाली** पर साइन अप करें।